



COM 303

B.Com. Vth SEMESTER EXAMINATION, 2023-24

COMMERCE

(Goods And Services Tax-I)

AFFIX PRESCRIBED
RUBBER STAMP

Date (तिथि) : _____

Paper ID

(To be filled in the OMR
Sheet)

1322

अनुक्रमांक (अंकों में) :

Roll No. (In Figures)

अनुक्रमांक (शब्दों में) :

Roll No. (In Words) : _____

Time : 1:30 Hrs.

समय : 1:30 घण्टे

Max. Marks : 75

अधिकतम अंक : 75

नोट : पुस्तिका में 50 प्रश्न दिये गये हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा।

Important Instructions :

1. The candidate will write his/her Roll Number only at the places provided for, i.e. on the cover page and on the OMR answer sheet at the end and nowhere else.
2. Immediately on receipt of the question booklet, the candidate should check up the booklet and ensure that it contains all the pages and that no question is missing. If the candidate finds any discrepancy in the question booklet, he/she should report the invigilator within 10 minutes of the issue of this booklet and a fresh question booklet without any discrepancy be obtained.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखेंगे जो इसके लिए दिये गये हैं, अर्थात् प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिये गये ओ०एम०आर० उत्तर पत्र पर, तथा अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे।
2. प्रश्न पुस्तिका मिलते ही अभ्यर्थी को जाँच करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। यदि कोई विसंगति है तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही कक्ष परिप्रेक्षक को सूचित करना चाहिए और बिना त्रुटि की दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लेना चाहिए।

1. Member of the GST Council should be :
 - (A) Union Finance Minister
 - (B) Union Home Minister
 - (C) State Chief Minister
 - (D) None of these
2. GST council can make recommendation on :
 - (A) Goods and services to be exempted from GST
 - (B) Taxes Surcharge to be subsumed in GST
 - (C) Fixation GST rate
 - (D) All of these
3. GST network has been established to provide :
 - (A) I.T. infrastructure for implementation of GST
 - (B) To establish a mechanism to solve disputes between states
 - (C) To facilitate harmonized national market for goods and services
 - (D) None of the above
4. Functions of GST network include :
 - (A) Facilitating registration
 - (B) Computation and settlement of IGST
 - (C) Matching tax payment details with banking network
 - (D) Above All
1. GST परिषद का सदस्य होना चाहिए :
 - (A) केन्द्रीय वित्त मन्त्री
 - (B) केन्द्रीय गृह मन्त्री
 - (C) राज्य का मुख्यमंत्री
 - (D) इनमें कोई नहीं
2. GST परिषद निम्नांकित संस्तुति कर सकती -
 - (A) GST से विमुक्त होने वाली माल/सेवाओं की पूर्तियां
 - (B) GST में समाहित नीय कर एवं उपकर
 - (C) GST दरों का निर्धारण
 - (D) इनमें से सभी
3. GST नेटवर्क की स्थापना निम्नांकित उद्देश्य के लिए की गयी है :
 - (A) GST के क्रियान्वयन के लिए सूचना तकनीकी आधारभूत सुविधाएं
 - (B) राज्यों के मध्य विवादों के निराकरण के लिए
 - (C) माल/सेवाओं को हारमोनाइज्ड राष्ट्रीय बाजार स्थापना में सुविधा प्रदायक
 - (D) उपर्युक्त कोई नहीं
4. GST नेटवर्क के कार्यों में सम्मिलित है :
 - (A) पंजीयन की सुविधा
 - (B) IGST की गणना एवं सेटलमेन्ट
 - (C) बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान विवरणों का मिलान
 - (D) उपर्युक्त सभी

5. Deemed supply is :
- Catering services
 - Supply of goods on hire purchase
 - Provision of facilities for its member by any association
 - All of these
6. Personal use of business assets without return is as under :
- Schedule –I (1)
 - Schedule –II (1)
 - Schedule –III (1)
 - None of these
7. In the cause of tax payable under reverse charge, the time of supply of service is :
- Date of payment
 - Date of receipt of services
 - Date of receipt of invoice/bill
 - All of these
8. Which one of the following is exempt from GST-
- Any business exhibition
 - Any business exhibition in India
 - Any business exhibition outside India
 - None of the above

5. मानी गई आपूर्ति है—
- केटरिंग सेवाएँ
 - किराया क्रय पर की गई वस्तुओं की आपूर्ति
 - संघ द्वारा अपने सदस्यों को सुविधाओं की व्यवस्था करना
 - ये सभी
6. बिना प्रतिफल के व्यापारिक परिसम्पत्तियों का निजी उपयोग निम्न के अन्तर्गत है :
- अनुसूची –I (1)
 - अनुसूची–II (1)
 - अनुसूची–III (1)
 - इनमें से कोई नहीं
7. रिवर्स प्रभार के अन्तर्गत कर देय की दशा में सेवा की आपूर्ति का समय है :
- भुगतान किए जाने की तिथि
 - सेवाओं को प्राप्त करने की तिथि
 - चालान/बिल की प्राप्ति की तिथि
 - ये सभी
8. निम्नांकित में से एक GST से मुक्त है :
- कोई व्यावसायिक प्रदर्शनी
 - भारत में कोई व्यावसायिक प्रदर्शनी
 - भारत से बाहर कोई व्यावसायिक प्रदर्शनी
 - उपर्युक्त से कोई नहीं

9. Services by way of loading, unloading packing storage or ware housing shall be exempt in case of :

- (A) Pulses
- (B) Wheat and Rice
- (C) Rice
- (D) All cereals

10. Which of the following is included in a person ?

- (A) Any Firm
- (B) Any Company
- (C) Any Person
- (D) All of these

11. Which of the following is a included in a family ?

- (A) Husband
- (B) Wife
- (C) Mother-Father
- (D) All of these

12. In which section is Deemed Export notified ?

- (A) 147
- (B) 2
- (C) 116
- (D) 57

13. Which of the following is not a Union Territory ?

- (A) Chandigarh
- (B) Patna
- (C) Lakshadweep
- (D) None of these

9. निम्नांकित की स्थिति में लदाई, उतराई, पैकिंग, संग्रहण या वेयर हाउसिंग रूपी सेवा विमुक्त होगी—

- (A) दालें
- (B) गेहूँ एवं चावल
- (C) चावल
- (D) सभी खाद्य पदार्थ

10. निम्न में से कौन सा व्यक्ति के अन्तर्गत शामिल है ?

- (A) कोई फर्म
- (B) कोई कम्पनी
- (C) कोई व्यक्ति
- (D) ये सभी

11. निम्न में से कौन कुटुम्ब में शामिल है ?

- (A) पति
- (B) पत्नी
- (C) माता-पिता
- (D) ये सभी

12. माना गया निर्यात कौन सी धारा में अधिसूचित है ?

- (A) 147
- (B) 2
- (C) 116
- (D) 57

13. निम्न में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है ?

- (A) चण्डीगढ़
- (B) पटना
- (C) लक्षद्वीप
- (D) इनमें से कोई नहीं

14. In case of postpaid mobile connection the place of supply will be :
- The location of supplier
 - The address given on the bill service recipient
 - The location of receiving the service
 - None of these
15. In case of prepaid mobile connection the place of supply will be :
- Place where payment is mode for connection
 - Location of company
 - Location of mobile holder
 - None of these
16. GST rate is not applicable “
- Iron
 - Cement
 - Electronic
 - Petrol
17. The element that is a constituent of supply is :
- The supply is in a taxable area
 - The supply is a taxable supply
 - Supply of goods and services
 - All of these
14. पोस्टपेड मोबाईल कनेक्शन के मामले में आपूर्ति का स्थान होगा :
- आपूर्तिकर्ता का स्थान
 - सेवा प्राप्तकर्ता के बिल में दिया गया पता
 - सेवा प्राप्त करने का स्थान
 - इनमें से कोई नहीं
15. प्रीपेड मोबाईल कनेक्शन के मामले में आपूर्ति का स्थान होगा :
- जिस स्थान से कनेक्शन के लिए भुगतान किया जाता है
 - कम्पनी का स्थान
 - मोबाईल धारक का स्थान
 - इनमें से कोई नहीं
16. GST दर लागू नहीं है :
- लोहा
 - सीमेन्ट
 - इलेक्ट्रॉनिक
 - पेट्रोल
17. आपूर्ति के गठन का तत्व है :
- आपूर्ति कराधीन क्षेत्र में है
 - आपूर्ति कराधीन आपूर्ति है
 - वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति
 - ये सभी

18. Supply includes -

- (A) License
- (B) Sales
- (C) Lease
- (D) All of these

19. When the movement of goods is caused by an unregistered person the e-way bill shall be generated by -

- (A) Unregistered person himself
- (B) The transport
- (C) Either of them
- (D) None of them

20. Zero Rated supply includes :

- (A) Export of goods/services
- (B) Supply of goods/ services to SEZ developer unit
- (C) Supply goods/ services by SEZ developer unit
- (D) Both (A) and (B)

21. Supply of goods to SEZ unit is treated as _____ in the hands of supplies -

- (A) Exempt supply _____ reversal of credit
- (B) Deemed Export supply _____ no reversal of credit
- (C) Export of supplies
- (D) Non-taxable supply _____ outside the Scope of GST

18. आपूर्ति में शामिल है -

- (A) लाईसेन्स
- (B) बिक्री
- (C) पट्टा
- (D) ये सभी

19. जब माल का प्रचालन अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है, ई-वे बिल का सृजन किया जायेगा-

- (A) स्वयं अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा
- (B) परिवहन कर्ता द्वारा
- (C) इनमें से किसी के भी द्वारा
- (D) इनमें से कोई नहीं

20. शून्य दर पूर्ति में शामिल है :

- (A) माल सेवाओं का निर्यात
- (B) SEZ विकास कर्ता इकाई को माल/सेवाओं की पूर्ति
- (C) SEZ विकास कर्ता इकाई द्वारा माल/सेवाओं की पूर्ति
- (D) (A) एवं (B) दोनों

21. SEZ इकाई को माल की पूर्ति की पूर्तिकर्ता के लिए _____ माना जाता है-

- (A) कर मुक्त पूर्ति _____ ITC की वापसी
- (B) मानी गई निर्यात पूर्ति _____ ITC की वापसी नहीं
- (C) पूर्तियों का निर्यात
- (D) गैर कर योग्य पूर्ति _____ GST के क्षेत्र से बाहर

- | | |
|--|---|
| 22. Indirect tax is levied on : | 22. अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है |
| (A) Goods | (A) वस्तुओं पर |
| (B) Services | (B) सेवाओं पर |
| (C) Goods and Services | (C) वस्तुओं एवं सेवाओं पर |
| (D) Income | (D) आय पर |
| 23. Which of the following is a Pre-GST tax ? | 23. निम्न में से कौन सा GST का पूर्ववर्ती कर है ? |
| (A) VAT | (A) वैट |
| (B) Central Sales Tax | (B) केन्द्रीय विक्रय कर |
| (C) Excise Duty | (C) उत्पाद शुल्क |
| (D) All of these | (D) ये सभी |
| 24. Input tax is related to : | 24. इनपुट कर सम्बन्धित है : |
| (A) Central Tax | (A) केन्द्रीय कर |
| (B) State Tax | (B) राज्य कर |
| (C) Integrated Tax | (C) एकीकृत कर |
| (D) All of these | (D) ये सभी |
| 25. On inter-state supply is applicable : | 25. अन्तर्राज्यीय आपूर्ति पर लागू है : |
| (A) CGST | (A) CGST |
| (B) SGST | (B) SGST |
| (C) IGST | (C) IGST |
| (D) None of these | (D) इनमें से कोई नहीं |
| 26. Services of GST network include: | 26. GST नेटवर्क सेवाओं में शामिल है : |
| (A) Return filing and processing | (A) विवरणियों की प्रस्तुति एवं प्रक्रियाकरण |
| (B) Fixing threshold limit of turnover for exemption | (B) विमुक्ति के लिए आवर्त सीमा का निर्धारण |
| (C) Invoicing supply of goods/services | (C) माल/सेवाओं की पूर्ति का बीजक निर्गमन |
| (D) None of these | (D) इनमें से कोई नहीं |

27. E-way Bill is generated -
- Electronically to validated movement of goods
 - Such movement is in relation of supply
 - When value of goods exceeds ₹50,000
 - All of these
28. It is mandatory to generate E-way Bill when :
- Value of consignment exceeds ₹50,000
 - Nature of consignment is full vehicle
 - Loaded with exempted goods only
 - Loaded in own conveyance
29. What are the taxes levied on an inter-state supply ?
- CGST
 - SGST
 - CGST and SGST
 - IGST
30. Who will notify the rate of tax to be levied under CGST ?
- Central Govt. Suo-Motu
 - State Govt. Suo-Motu
 - GST council Suo-Motu
 - Central Government on recommendation of GST council
27. ई-वे बिल का सृजन किया जाता है -
- माल के प्रचालन की इलेक्ट्रॉनिकली वैधता
 - ऐसा प्रचालन का सम्बन्ध पूर्ति है
 - जब माल का मूल्य ₹50,000 से अधिक हो
 - इनमें से सभी
28. निम्न स्थिति में ई-वे बिल का सृजन अनिवार्य है :
- प्रेषण का मूल्य ₹50,000 से अधिक है
 - प्रेषण की प्रकृति पूर्ण वाहन रूपी है
 - केवल कर-मुक्त माल लदा हुआ है
 - स्वयं की सवारी में लदा हुआ है
29. अन्तरराज्यीय पूर्ति पर उद्ग्रहणीय कर है
- CGST
 - SGST
 - CGST and SGST
 - IGST
30. CGST के अधीन उद्ग्रहणीय कर की दर को अधिसूचित किया जाता है :
- केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वयं प्रेरित
 - राज्य सरकार द्वारा स्वयं प्रेरित
 - GST काउंसिल द्वारा स्वयं प्रेरित
 - केन्द्रीय सरकार द्वारा GST काउंसिल की संस्तुति पर

31. Which of the following taxes will be levied on imports ?
 (A) CGST
 (B) SGST
 (C) IGST
 (D) CGST and SGST
32. Tax has not been subsumed in GST :
 (A) Central Excise Duty
 (B) Service tax
 (C) Excise duty on Tobacco Duty
 (D) None of these
33. Tax has been subsumed in GST
 (A) Basic Custom Duty
 (B) Service Tax
 (C) Stamp Duty
 (D) Tax on Electricity
34. Which of the following tax has not subsumed in GST ?
 (A) Central Excise Duty
 (B) Service Tax
 (C) Basic Custom Duty
 (D) Special Additional Duty of customs
35. Which is the commodity kept outside the purview of GST ?
 (A) Tobacco and tobacco product
 (B) Petroleum products
 (C) Edible oil
 (D) Domestic LPG
31. आयात पर उद्ग्रहणीय कर है :
 (A) CGST
 (B) SGST
 (C) IGST
 (D) CGST एवं SGST
32. GST में समाहित कर नहीं है :
 (A) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 (B) सेवा कर
 (C) तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क
 (D) इनमें कोई नहीं
33. GST में समाहित कर है
 (A) मूल सीमा शुल्क
 (B) सेवा कर
 (C) स्टाम्प ड्यूटी
 (D) बिजली पर कर
34. निम्नांकित में से कौन सा कर GST में समाहित नहीं है :
 (A) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 (B) सेवा कर
 (C) मूल सीमा शुल्क
 (D) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क
35. GST से बाहर कौन सी वस्तु/माल है ?
 (A) तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद
 (B) पेट्रोलियम उत्पाद
 (C) खाद्य तेल
 (D) घरेलू LPG

36. Term 'Goods' means movable property but does not include -
 (A) Actionable claim
 (B) Growing crops
 (C) Securities
 (D) Sugar
37. Which is not a feature of GST ?
 (A) Comprehensive
 (B) Destination based
 (C) Levied on every value addition
 (D) Levied only on manufacture
38. The Central sales Tax Act was passed in :
 (A) 1956
 (B) 1960
 (C) 1972
 (D) 1984
39. Central Excise Act was made in :
 (A) 1936
 (B) 1940
 (C) 1944
 (D) 1956
40. Services tax became applicable in India in :
 (A) 1990
 (B) 1994
 (C) 2000
 (D) None of these
41. The custom Act was made in :
 (A) 1930
 (B) 1935
 (C) 1956
 (D) 1962
36. माल का आशय चल सम्पत्ति से है, परन्तु इसमें शामिल नहीं है—
 (A) अभियोजन योग्य दावे
 (B) उगती फसलें
 (C) प्रतिभूतियाँ
 (D) चीनी
37. GST की विशेषता नहीं है ?
 (A) विस्तृत
 (B) गतव्य आधारित
 (C) प्रत्येक मूल्य सम्बर्धन पर उद्ग्रहणीय
 (D) केवल निर्माण पर उद्ग्रहणीय
38. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम पारित किया गया :
 (A) 1956
 (B) 1960
 (C) 1972
 (D) 1984
39. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम बना :
 (A) 1936
 (B) 1940
 (C) 1944
 (D) 1956
40. भारत में सेवाकर लागू हुआ :
 (A) 1990
 (B) 1994
 (C) 2000
 (D) इनमें से कोई नहीं
41. सीमा शुल्क अधिनियम बना :
 (A) 1930
 (B) 1935
 (C) 1956
 (D) 1962

42. Which was the first country to adopt GST (Goods and Service Tax) ?
- (A) Spain
(B) France
(C) America
(D) Britain
43. In which year was Goods and Services Tax (GST) first introduced in the world ?
- (A) 1954
(B) 1940
(C) 1960
(D) 1975
44. When was GST implemented in India ?
- (A) 1st July 2016
(B) 1st May 2017
(C) 1st July 2017
(D) 1st November, 2015
45. Which among the following is not included under GST ?
- (A) Textile industry
(B) Restaurant
(C) Motor car Industry
(D) Crude Oil
42. GST (वस्तु एवं सेवाकर) सबसे पहले किस देश ने अपनाया ?
- (A) स्पेन
(B) फ्रांस
(C) अमेरिका
(D) ब्रिटेन
43. विश्व में वस्तु एवं सेवा कर सर्वप्रथम किस वर्ष लगाया गया ?
- (A) 1954
(B) 1940
(C) 1960
(D) 1975
44. भारत में जी०एस०टी० (GST) कब लागू हुआ ?
- (A) 1 जुलाई 2016
(B) 1 मई 2017
(C) 1 जुलाई 2017
(D) 1 नवम्बर, 2015
45. निम्न में से क्या GST के अन्तर्गत नहीं है :
- (A) कपड़ा उद्योग
(B) रेस्टोरेन्ट
(C) मोटरकार उद्योग
(D) कच्चा तेल

46. Which set-off is not allowed ?
- (A) IGST against IGST, CGST, SGST on inputs
- (B) CGST against SGST on inputs
- (C) SGST against IGST and SGST on inputs
- (D) CGST against IGST and CGST on inputs

47. Interstate supplies is subject to :
- (A) CGST
- (B) SGST and UTGST
- (C) CGST and SGST/UTGST
- (D) IGST

48. What is the maximum rate prescribed under CGST ?
- (A) 14%
- (B) 28%
- (C) 20%
- (D) 40%

46. सेट ऑफ स्वीकृत नहीं है ?

- (A) IGST के इनपुट्स पर IGST, CGST, SGST के विरुद्ध
- (B) CGST का इनपुट्स पर SGST के विरुद्ध
- (C) SGST का इनपुट्स पर IGST एवं SGST के विरुद्ध
- (D) CGST का इनपुट्स IGST एवं CGST के विरुद्ध

47. राज्य के अन्दर पूर्तियां निम्नाधीन कर योग्य है :

- (A) CGST (केन्द्रीय माल एवं सेवा कर)
- (B) SGST एवं UTGST
- (C) CGST एवं SGST/UTGST
- (D) IGST

48. CGST की अधिकतम निर्धारित दर क्या है ?

- (A) 14%
- (B) 28%
- (C) 20%
- (D) 40%

49. Which Model of GST has been introduced in India ?

- (A) National Level GST
- (B) State Level GST
- (C) Dual GST
- (D) None of the above

50. Which assumption or assumptions are used in determining the place of supply in a transaction ?

- (A) The location of service provider
- (B) The Location of service recipient
- (C) The location of Utilization of services
- (D) All of these

49. भारत में GST का कौन सा मॉडल प्रचलित है ?

- (A) राष्ट्र स्तरीय जी०एस०टी०
- (B) राज्य स्तरीय जी०एस०टी०
- (C) दोहरी जी०एस०टी०
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

50. लेन-देन में आपूर्ति के स्थान का निर्धारण करने के लिए कौन सी मान्यता अथवा मान्यताओं का प्रयोग किया जाता है ?

- (A) सेवा प्रदान करने वाले का स्थान
- (B) सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान
- (C) सेवाओं के उपयोग करने का स्थान
- (D) ये सभी
